




श्रीकाञ्चीकामकोटि - पीठाधिपति - जगद्गुरु - श्रीजयेन्द्रसरस्वती -  
श्रीपादानां श्रीचरणयोर्नमःपूर्विका पुष्पाञ्जलिः

*Śrīkāñcīkāmakoti-pīṭhādhipati-jagadguru-śrījayendrasarasvatī-*  
*ŚrīpādānāM Śrīcaranayornamahpūrvikā PuspāñjaliH*



A print out of this Translation/Transliteration was offered to H. H. Sri Jayendra Saraswati Swamigal on Tuesday, August 12, 2003, and got Blessed for all the devotees across the world on the occasion of His 69th Jayanthi, by Sri S. V. Radhakrishna Shastri (composer of this original Naamvali) at the Brindavanam of H. H. Sri Maha Swamigal at Sri Matam in Kanchipuram.

Earlier on Anusham Day, August 7, 2003, the same was shown to H. H. Sri Sankara Vijayendra Saraswathi Swamigal and got blessed to proceed.

1. जयाख्याप्रसिद्धेन्द्रसरस्वत्यै नमो नमः ज्याक्याप्रसिद्धेन्द्रसरस्वत्यै नमो नमः  
*jayākhyayā-prasiddhendra-sarasvatyai namo namah* jayAkhyayA-prasiddhendra-sarasvatyai namo nama:  
 श्रीजयेन्द्र शर्वलित् एन्ऱ प्ररलित् तमाण आसार्याङ्ककु नमस्कारम्  
 Obeisance to the Acharya well known as *Srī Jayendra Sarasvati*
2. तमोपहग्रामरत्नसम्भूताय नमो नमः तमोपहग्रामरत्नसम्भूताय नमो नमः  
*tamo' paha-grāma-ratna-sambhūtaya namo namah* tamo(a)paha-grAma-ratna-sambhUtAya namo nama:  
 इरुन्तक्कि ऎन्ऱ किराम-रत्नत्तिल् पिऱन्तवरुक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to Him born in a jewel of a village named Irulniikki
3. महादेवमहीदेवतनूजाय नमो नमः महादेव-महीदेव-तनूजाय नमो नमः  
*mahādeva-mahīdeva-tanūjāya namo namah* mahAdeva-mahIdeva-tanUjAya namo nama:  
 महादेवेन ऎन्ऩुम अन्तन्नारुक्कु पिऱन्तवरुक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to Him, son of the Brahmin named Mahadeva
4. सरस्वतीगर्भशुक्तिमुक्तारत्नाय ते नमः शर्वलित्-कर्पपर्चाक्ति-मुक्ता-रत्नाय ते नमः  
*sarasvatī-garbhashukti-muktā-ratnāya te namah* sarasvatiI-garbhaSukti-muktA-ratnAya te nama:  
 शर्वलित् अम्माणुट्टेय कर्प पुत्तुसिप्पिलिरुन्तु वन्त रत्न मुक्ताण उमक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to You, who is a pearl released from the pearl oyster womb of Sarasvathi Ammal
5. सुब्रह्मण्याभिधानीतकौमाराय नमो नमः श्व-प्ररह्ममन्यापितान्त-केमाराय नमो नमः  
*subrahmanyābhidhānīta-kaumārāya namo namah* subrahmaNyAbhidhAnIta-kaumArAya namo nama:  
 श्व-प्ररह्ममन्याण ऎन्ऱ बेयरुटन् पाल्परुवत्तेत कழித्तवरुक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to to Him, who spent his boyhood with name Subrahmanya
6. मध्यार्जुनगजारण्याधीतवेदाय ते नमः मत्यार्जुन-कौराण्यातित-वेताय ते नमः  
*madhyārjuna-gajāraṇyādhīta-vedāya te namah* madhyArjuna-gajAraNyAdhIta-vedAya te nama:  
 तिरुविटमरुत्तारिलुम् तिरुवाइंककावलिलुम् वेतम् पातित्त उमक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to You, who studied the Vedas in *Tiruvidai Marudār* and *Tiruvanaikoil*
7. स्ववृत्तप्रीणिताशेषाध्यापकाय नमो नमः श्ववृत्तप्रीणिताशेषाध्यापकाय नमो नमः  
*svavṛutta-prīṇitāśeṣādhyāpakāya namo namah* svavRttaprINitASeshAdhyApakAya namo nama:  
 तन् नल्ल नुट्टेत्तयिऩ्ल ऎल्ला आसिर्यरकलायुम् मकिऴ्वित्तवरुक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to Him who gave happiness to all his teachers with his adherence to strict conduct
8. तपोनिष्ठगुरुज्ञातवैभवाय नमो नमः तपोनिष्ठगुरुज्ञातवैभवाय नमो नमः  
*taponiṣṭha-gurujñāta-vaibhavāya namo namah* taponishTha-gurujnAta-vaibhavAya namo nama:  
 तपत्तिल नीष्टेट्टयुटन् इरुक्कुम तन् कुरुविऩ्ल अर्नियप्पट्ट वैवपवत्तुटन् कुष्टियवरुक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to Him whose greatness was known to his guru who was immersed in tapas
9. गुर्वाज्ञापालनरतपितृदत्ताय ते नमः गुर्वाज्ञापालनरतपितृदत्ताय ते नमः  
*gurvājñāpālana-rata-pitr-dattāya te namah* gurvAjnApAlana-rata-pitR-dattAya te nama:  
 गुरुविळ आज्ञेन्तये काप्पतिल चिरत्तेत कोண्ट तकप्पत्तराल (गुरुविटम) तरप् बेऱ्ऱ उमक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to You, who was given (to his guru) by his father who ardently followed the commands of his guru

10. जयाब्दे स्वीकृततुरीयाश्रमाय नमो नमः जियाप्तें ल्विक्रुत-तुरीयाश्रमाय नमो नमः  
*jayābde svikṛta-turiyāśramāya namo namaḥ* *jayAbde svIkRta-turIyASramAya namo nama:*  
 जिय लम्बत्तेरात्तिलं नान्कावतु आचिरमत्तेत (लन्याल आचिरमत्तेत) एर्हुक्केऽन्नतवरुक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to Him who took the fourth *āśrama* (sanyasa) during the year *jaya*
11. जयाख्यया स्वगुरुणा दीक्षिताय नमो नमः जियाक्यया ल्ववक्तुरुणे तिक्षिताय नमो नमः  
*jayākhyayā svaguruṇā dīkṣitāya namo namaḥ* *jayAkhyayA svaguruNA dIkshitAya namo nama:*  
 तन् कुरुवाल “जिय” ऎन्ऱ बेयरुटे तिक्षिते केऽनुक्कपट्टवरुक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to Him who was initiated into His vows by his guru, with the name of “*Jaya*”
12. ब्रह्मचर्यादेव लब्धप्रव्रज्याय नमो नमः प्ररुद्धमशर्यातेव ल्पत-प्ररवर्जियाय नमो नमः  
*brahmaçaryādeva labdha-pravrajyāya namo namaḥ* *brahmacaryAdeva labdha-pravrajyAya namo nama:*  
 प्ररुद्धमशारी न्तिलयिलिरुन्ते तुरवु पून्नतवरुक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to Him who became a sanyasi even at his *brahmacāri* stage of life
13. सर्वतीर्थते लब्धचतुर्थाश्रमिणे नमः सर्व-तिर्थतटे ल्पत-सतुर्ताश्रमिणे नमः  
*sarva-tīrthataṭe labdha-caturthāśramiṇe namaḥ* *sarva-tIrthataTe labdha-caturthASramiNe nama:*  
 (कान्त्सियिल) सर्वतीर्थतटत्तिलं नान्कावतु आचिरमत्तेत (लन्याल आचिरमत्तेत) एउत्तुक्केऽन्नतवरुक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to Him who undertook the fourth stage of his life ( *sanyāsa* ) at *Sarvatīrtha* (in Kanchi)
14. काषायवासःसंवीतशीराय नमो नमः काषायवासल्स-सम्मीत-पा रीयाय नमो नमः  
*kāṣāya-vāsa-saMvita-śarīraya namo namaḥ* *kAshAya-vAsas-samvIta-SarIrAya namo nama:*  
 काषायवास वस्त्रम तरीत्त चर्मुमत्तयवरुक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to Him whose body is covered by a *kāṣāya* *vastram*
15. वाक्यज्ञाचार्योपदिष्टमहावाक्याय ते नमः वाक्यं गुरुसार्योपदिष्ट-महावाक्याय ते नमः  
*vākyajñācāryopadīṣṭa-mahāvākyāya te namaḥ* *vAkyajnAcAryopadishTa-mahAvAkyAyA te nama:*  
 महावाक्यम् अर्निन्त गुरुविटमिरुन्तु महावाक्यम् उपतेचम् बेर्ह उमक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to You, who received the *mahāvakyam* from Your guru, the knower of the *mahāvakyam*
16. नित्यं गुरुपद्वन्दनतिशीलाय ते नमः नित्यम् गुरु-पत-त्वन्तव-नति-पा॒लाय ते नमः  
*nityam guru-pada-dvandva-nati-śilāya te namaḥ* *nityam guru-pada-dvandva-nati-SIIAya te nama:*  
 तिन्मुम तन् कुरुविन् इरुपातन्कैला वज्जन्कुम पन्नपु उत्तेय उमक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to You, who has the habit of bows to the two feet of His guru, everyday
17. लीलया वामहस्ताग्रधृतदण्डाय ते नमः लीलया वामहस्ताग्र-त्तरुत-तन्नटाय ते नमः  
*līlāyā vāma-hastāgra-dhṛta-danḍāya te namaḥ* *lIlayA vAmahastAgra-dhRta-daNDAYa te nama:*  
 इटतु करत्तिल लन्यालिकग्नुक्कु उरीत्तान तन्नत्तेत अमुक्तन एर्हुक्केऽन्नत उमक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to You, who holds the *sanyāsa danda* (cane of the sanyaasis) with great elegance with Your left hand
18. भक्तोपहृतविल्वादिमालाधर्ते नमो नमः पक्तेतोपहृत-पिल्वाति-माला-तर्तरे नमो नमः  
*bhaktopahṛta-bilvādi-mālā-dhartre namo namaḥ* *bhaktopahRta-bilvAdi-mAlA-dhartre namo nama:*  
 पक्ततर्तकौल केऽन्नुवरप्पट्ट पिल्व मुत्तलिय तैल मालैकैल अलंक्कारमाक एर्हुक्केऽन्नत उमक्कु नमस्कारम्  
 Obeisance to Him who accepts garlands of bilva leaves etc. brought by devotees

19. जम्बीरतुलसीमालाभूषिताय नमो नमः <i>jambīra-tulasīmālā-bhūṣitāya namo namah</i>	जिम्पेर-तुलसीमाला-पूषिताय नमो नमः jambIra-tulasImAlA-bhUshitAya namo nama:
एवुमिच्चम्पमूम्, तुलसी माले काला अलंकारीकक्पपट्टवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who is adorned with garlands of lime fruits and tulasi	
20. कामकोटिमहापीठाधीश्वराय नमो नमः <i>kāmakotī-mahāpīṭhādhīśvarāya namo namah</i>	कामकोटि-महापीठाधीश्वराय नमो नमः kAmakoTi-mahApIThAdhISvarAya namo nama:
कामकोटि एन्नुम महापीठत्तिर्णु अथिपतियाणवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who is the head of the great monastery seat called <i>Kāmakoti</i>	
21. सुवृत्तनृहृदाकाशनिवासाय नमो नमः <i>suvṛttā-nṛ-hṛdākāśa-nivāsāya namo namah</i>	सू-वृत्तनृ-हृदाकाश-निवासाय नमो नमः suvRtta-nR-hRdAkASa-nivAsAya namo nama:
नन्नन्नत्तत्तयुत्तयवर्कनिन् हीरुत्यम् एन्नुम आकाशत्तिल वचिप्पवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who dwells in the space of the hearts of people of good conduct	
22. पादानतजनक्षेमसाधकाय नमो नमः <i>pādānata-janakṣema-sādhakāya namo namah</i>	पातानत-जिनक्षेम-साधकाय नमो नमः pAdAnata-janakshema-sAdhakAya namo nama:
(तन्) पातत्तिल नमस्करीक्कुम जिनक्कुलुक्कु क्षेमम अनिप्पवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who bestows well-being to those who worship at (His) feet	
23. ज्ञानदानोत्कमधुरभाषणाय नमो नमः <i>jñāna-dānotka-madhura-bhāṣaṇāya namo namah</i>	ज्ञान-तानेत्क-मतुर-पाष्ठिण्य नमो नमः jnAna-dAnotka-madhura-bhAshaNAya namo nama:
गुणम त्रुवतिल आर्वमुन्न मतुरमान पेश्च उल्लवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who speaks sweet words to impart <i>jñāna</i>	
24. गुरुप्रियाब्रह्मसूत्रवृत्तिकर्त्रे नमो नमः <i>gurupriyā-brahmasūtra-vṛtti-kartre namo namah</i>	गुरुप्रिया-ब्रह्मसूत्र-वृत्ति-कर्त्रे नमो नमः gurupriyA-brahmasUtra-vRtti-kartre namo nama:
प्रहृमला त्तिर्णुत्तिर्णु “गुरुप्रिया” एन्नुम लकु-पाष्ठियम एमुत्यवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who has written a short commentary named “ <i>gurupriyā</i> ” on the <i>Brahmasūtra</i>	
25. जगद्गुरुवरिष्ठाय महते महसे नमः <i>jagadguruvarīṣṭhāya mahate mahase namah</i>	जिक्तक्कुरु-वरीष्टाय महते महसे नमः jagadguruvarishThAya mahate mahase nama:
महाज्योतियम महात्मामान जिक्तक्कुरुवक्कु नमस्कारम् Obeisance to the great and shining guru of the universe	
26. भारतीयसदाचारपरित्रात्रे नमो नमः <i>bhāratīya-sadācāra-paritrātre namo namah</i>	पारतीय-सदाचार-परित्रात्रे नमो नमः bhAratIya-sadAcAra-paritrAtre namo nama:
पारततेचत्तवरीन लताचारत्तत काप्पवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who protects the good conduct of the people of <i>Bhārata</i>	
27. मर्यादोल्लङ्घिजनतासुदूराय नमो नमः <i>maryādollaṅghi-janatā-sudūrāya namo namah</i>	मर्यादेताल्लङ्कि-जिनता-सू-तुराय नमो नमः maryAdollanghi-janatA-sudUrAya namo nama:
नन्नन्नत्तत्तयिन् वरम्पेप मैरुम जिनक्कुलुक्कु वेकु तुरात्तिल इरुप्पवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who is far away to those who have crossed the boundaries of good conduct	

28. सर्वत्रसमभावासौहृदाय नमो नमः <i>sarvatra-samabhāvāpta-sauhṛdāya namo namah</i>	ஸர்வத்ர-ஸமபாவப்த-ஸெளஹ்ருதாய நமோ நமः <i>sarvatra-samabhAvApta-sauhRdAya namo nama:</i>
எல்லோரையும் ஸமமாக பார்ப்பதால் நல்மனம் பெற்றவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who has a good heart by treating all people equally	
29. वीक्षाविवशिताशेषभावुकाय नमो नमः <i>vīksā-vivāśitāśesa-bhāvukāya namo namah</i>	வீச்சிடா-விவஶிதாஸே-பாவுகாய நமோ நமः <i>vIkshA-vivaSitASesha-bhAvukAya namo nama:</i>
தன் கண்பார்வையினாலேயே நல்லோரை வசமாக்குபவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who attracts all good people	
30. श्रीकामकोटिपीटाप्र्यनिकेताय नमो नमः <i>śrikāmakoṭi-pīṭāgrya-niketāya namo namah</i>	ஸ்ரீகாமகோடி-பீடாக்ர்யா-நிகேதாய நமோ நமः <i>SrIkAmakoTi-pITAgrya-niketAya namo nama:</i>
ஸ்ரீகாமகோடிபீடத்தில் வசிப்பவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who resides at the <i>Śrī Kamakotipīṭham</i> monastery	
31. कारुण्यपूरपूर्णान्तःकरणाय नमो नमः <i>kāruṇyapūra-pūrṇāntaḥkaraṇāya namo namah</i>	காருண்யபூர-பூர்ணாந்தःகரணாய நமோ நமः <i>kAruNyapUra-pUrNAnta:karaNAya namo nama:</i>
கருணைப்பெருக்கு நிரம்பிய உள்ளம் உடையவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him whose heart is filled with kindness	
32. चन्द्रशेखरचित्ताब्जाह्लादकाय नमो नमः <i>candraśekhara-cittābjaḥlādakāya namo namah</i>	சந்த்ரபோ கர-சித்தாப்ஜோஹ்லாதகாய நமோ நமः <i>candraSekhara-cittAbjAhlAdakAya namo nama:</i>
தன் குரு ஸ்ரீ சந்த்ரபோ கருடைய சித்தத்திற்கு பெரு மதிழ்ச்சி கொடுப்பவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who gives great joy to the lotus mind of his guru, <i>Śrī Chandrashekarendra Sarasvatī</i>	
33. पूरितस्वगुरुत्तंसङ्कल्पाय नमो नमः <i>pūrita-svagurūttamṣa-saṅkalpāya namo namah</i>	பூரித-ஸ்வகுருத்தம்-ஸ-ஸங்கல்பாய நமோ நமः <i>pUrIta-svagurUttamsa-sankalpAya namo nama:</i>
தன் உத்தம குருவின் எல்லா திட்டங்களையும் நிறைவேற்றியவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who completed all the plans of his lofty guru	
34. त्रिवारं चन्द्रमौलीशपूजकाय नमो नमः <i>trivāram candramaulīśa-pūjakāya namo namah</i>	த்ரிவாரம் சந்த்ரமெள்சா-பூஜகாய நமோ நமः <i>trivAram candramaulISa-pUjakAya namo nama:</i>
தினமும் முன்று காலம் சந்த்ரமெள்பூஜை செய்பவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who performs puja to Lord Chandramauli three times a day	
35. कामाक्षीध्यानसंलीनमानसाय नमो नमः <i>kāmākṣī-dhyāna-samṛ̥līna-mānasāya namo namah</i>	காமாக்ஷி-த்யான-ஸம்ரீன-மானஸாய நமோ நமः <i>kAmAkshI-dhyAna-samlIna-mAnasAya namo nama:</i>
ஸ்ரீ காமாக்ஷித்யானத்தில் முழுகிய மனமுடையவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him whose mind is engrossed in the meditation of <i>Śrī Kamakṣī</i>	
36. सुनिर्मितस्वर्णरथवाहिताम्बाय ते नमः <i>sunirmita-svarṇa-ratha-vāhitāmbāya te namah</i>	ஸ-நிர்மத-ஸ்வர்ண-ரத-வாஹிதாம்பாய தே நமः <i>sunirmita-svarNa-ratha-vAhitAmbAya te nama:</i>
தங்கத்தால் நன்கு நிர்மாணம் செய்த ரதத்தில் (காமாக்ஷி) அம்பாளை ஊர்வலம் எடுக்கும் உமக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to You, who circumambulates ( <i>Kāmākṣī</i> ) <i>Ambā</i> on a well crafted golden chariot	

37. परिष्कृताखिलाण्डेशीताटङ्गाय नमो नमः <i>pariṣkr̥ta-akhilāṇḍeṣī-tāṭaṅkāya namo namaḥ</i>	परिष्कृताखिलाण्डेशीताटङ्गाय नमो नमः parishkRta-akhilANDeSI-tATankAya namo nama: (திருவாணைக்காவல்) அகிலன்டேச்வரியின் தாடகங்களை புதிப்பித்து அலங்காரம் செய்தவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who decorated the ears of <i>Akhilāṇḍeṣvarī</i> of Tiruvanaikaval with refined <i>tāṭaṅkas</i>
38. रत्नभूषितनृत्येशहस्तपादाय ते नमः <i>ratna-bhūṣita-nṛtyeśa-hastapādāya te namah</i>	रत्न-भूषित-नृत्येश-हस्तपादाय ते नमः ratna-bhUshita-nRtyeSa-hastapAdAya te nama: (சிதம்பர) நடராஜின் கரங்களுக்கும் பாதங்களுக்கும் ரத்துலங்காரம் செய்த உமக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to You, who decorated the arms and feet of Lord Nataraja (of Chidambara) with diamond studded ornaments
39. वेङ्कटाद्रीशकरुणास्त्राविताय नमो नमः <i>veṅkatādriśa-karunā-plāvītāya namo namaḥ</i>	वेङ्कटाद्रीश-करुणा-प्लावीताय नमो नमः venkaTAdriISa-karuNA-plAvitAya namo nama: वेङ்கடாசலத்தில் இருக்கும் ஈசனின் கருணைவெள்ளத்தில் நன்றவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who is immergeed by the flood of mercy gushing from the Lord of the Venkatadri Mountain
40. काश्यं श्रीकामकोटिशालयकर्त्रे नमो नमः <i>kāśyāṁ śrīkāmakoṭiśālaya-kartre namo namaḥ</i>	काश्याम् श्रीकामकोटिशालय-कर्त्रे नमो नमः kASyAm SrIkAmakoTiSAlaya-kartre namo nama: காசியில் ஸ்ரீ காமகோட்டீஶாலயக்கர்த்தில் நிர்மாணம் செய்தவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who constructed a temple for <i>Śrī Kāmakoṭiśvara</i> in the city of <i>Kāśī</i>
41. कामाक्ष्याम्बालयस्वर्णच्छादकाय नमो नमः <i>kāmākṣyāmbālaya-svarṇacchādakāya namo namaḥ</i>	कामाक्ष्याम्बालय-स्वर्णच्छादकाय नमो नमः kAmAkshyAmbAlaya-svarNacchAdakAya namo nama: (காஞ்சியில்) ஸ்ரீ காமாக்ஷி அம்மனுக்கு தங்கக்கவசம் சாற்றியவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who covered <i>Devi Kamakṣi</i> (of <i>Kāñchi</i> ) with a golden armour
42. कुम्भाभिषेकसन्दीपालयव्रताय ते नमः <i>kumbhābhiseka-sandīptālaya-vrātāya te namah</i>	कुम्पाभिषेक-सन्तीपतालय-व्रताय ते नमः kumbhAbhisheka-sandIptAlaya-vrAtAya te nama: கும்பாப்பேஷேகத்தால் தேவாலயங்களை ஒளிபெறச் செய்த உமக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to You, who made lots of temples shine by performing <i>kumbhābhiseka</i> .
43. कालत्यां शङ्करयशःस्तम्भकर्त्रे नमो नमः <i>kālatyāṁ śaṅkara-yaśaHstambha-kartre namo namaḥ</i>	कालत्याम् शङ्कर-यशःस्तम्भ-कर्त्रे नमो नमः kAlaTyAm Sankara-yaSa:stambha-kartre namo nama: காலடியில் ஸ்ரீ ஶங்கர கிர்த்தில்தம்பம் நிர்மாணம் செய்தவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who constructed the <i>kīrtisthambha</i> for <i>Śrī Ādi Śaṅkara</i> in Kaladi
44. राजराजाख्यचोलस्य स्वर्णमौलिकते ते नमः <i>rājarājākhyā-colasya svarṇamauli-kṛte te namah</i>	राजराजाख्य-சोलास्य स्वर्णमौलि-कृते ते नमः rAjarAjAkhyā-colasya svarNamauli-kRte te nama: (தஞ்சாவூர்) ராஜராஜ சோழருக்கு தங்க கிர்தம் சாத்தின உமக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to You, who placed a golden crown on Rajaraja Chola (of Tanjore)
45. गोशालानिर्मितिकृतगोरक्षाय नमो नमः <i>gośālā-nirmiti-kṛta-gorakṣāya namo namaḥ</i>	गोशाला-निर्मिति-कृत-गोरक्षाय नमो नमः goSAla-nirmiti-kRta-gorakshAya namo nama: கோசாலைகள் கட்டி கோரக்கூடினாம் செய்தவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who constructed safe cowsheds to protect cows

46. तीर्थेषु भगवत्पादस्मृत्यालयकृते नमः: <i>tirtheṣu bhagavatpāda-smṛtyālayakṛte namah</i>	तिर्तेष्वा पकवत्पात-स्मृत्यालयकर्त्ते नमः: tIrtheshu bhagavatpAda-smRtyAlayakRte nama:
पल तीर्तस्तलंकरील श्रांकरपकवत्पातर नीजेवालयकैन निर्माणाम चेयतवरुक्कु नमस्कारम Obeisance to Him who has constructed memorial temples for <i>Ādi Śaṅkara</i> at several sacred river banks	
47. सर्वत्र शङ्करमठनिर्वहिते नमो नमः: <i>sarvatra śaṅkaramatha-nirvahitre namo namah</i>	सर्वत्र श्रांकरमट-निर्वहिते नमो नमः: sarvatra SankaramaTha-nirvahitre namo nama:
पल इटांकरील श्रांकरमटांकैन निर्वाहम चेयपवरुक्कु नमस्कारम Obeisance to Him who oversees <i>Śaṅkara Mathas</i> at several places	
48. वेदशास्त्राधीगुप्तिदीक्षिताय नमो नमः: <i>veda-śāstrādhīti-gupti-dikṣitāya namo namah</i>	वेत-शास्त्राधीति-गुप्ति-दीक्षिताय नमो नमः: veda-SAstrAdhIti-gupti-dIkshitAya namo nama:
वेतम शास्त्राधीगुप्तिदीक्षिताय अथत्तियान्तत्ते काप्पात्र विरतम कोण्टवरुक्कु नमस्कारम Obeisance to Him who has taken a vow to protect the traditional learning methods of the Vedas and Shastras	
49. देहल्यां स्कन्दगिर्याख्यालयकर्त्रे नमो नमः: <i>dehalyāM skandagiryākhyālaya-kartre namo namah</i>	देहल्याम श्वेतांत्रकर्त्रे नमो नमः: dehalyAm skandagiryAkhyAlaya-kartre namo nama:
दिल्लील श्वेतांत्रकर्त्रे नमो नमः Obeisance to Him who built a (Subrahmanya) temple in Delhi named Skandagiri	देहल्याम श्वेतांत्रकर्त्रे नमो नमः: dehalyAm skandagiryAkhyAlaya-kartre namo nama:
50. भारतीयकलाचारपोषकाय नमो नमः: <i>bhāratīya-kalācāra-poṣakāya namo namah</i>	भारतीयकलाचार-पोषकाय नमो नमः: bhAratIya-kalAcAra-poshakAya namo nama:
पारतकलाचारत्तेव वारप्पवरुक्कु नमस्कारम Obeisance to Him who nourishes the culture of India	
51. स्तोत्रनीतिग्रन्थपाठरुचिदाय नमो नमः: <i>stotra-nīti-grantha-pāṭha-rucidāya namo namah</i>	स्तोत्रनीतिग्रन्थपाठरुचिदाय नमो नमः: stotra-nIti-grantha-pATha-rucidAya namo nama:
स्तोत्रात्तरम, नीति नूलकर्त, इवकैन पादिपतिल रुचि ऊट्टुपवरुक्कु नमस्कारम Obeisance to Him who inculcates interest in reading <i>stotras</i> and works on <i>nīti</i>	
52. युक्त्या हरिहराभेद-दर्शयित्रे नमो नमः: <i>yuktyā hariharābheda-darśayitre namo namah</i>	युक्त्या हरिहराभेद-दर्शयित्रे नमो नमः: yuktyA hariharAbheda-darSayitre namo nama:
युक्त्या हरिहराभेद-दर्शयित्रे नमो नमः Obeisance to Him who proves that there is no difference between <i>Hari</i> and <i>Hara</i> by analysis	
53. स्वभ्यस्तनियमोन्नीतध्यानयोगाय ते नमः: <i>svabhyasta-niyamonnīta-dhyāna-yogāya te namah</i>	स्वभ्यस्तनियमोन्नीतध्यानयोगाय ते नमः: svabhyasta-niyamonnIta-dhyAna-yogAya te nama:
नन्कु पयिन्ऱ नियमंकराल त्रियानयोगाकृत्तिल श्रिप्पु बेप्प उमक्कु नमस्कारम Obeisance to You, who is in the yoga of contemplation achieved by the highest level of rigorous practices	
54. परधामपराकाशलीनचित्ताय ते नमः: <i>paradhāma-parākāśa-līnacittāya te namah</i>	परधाम-पराकाश-लीनचित्ताय ते नमः: paradhAma-parAkASa-lInacittAya te nama:
परधामपराकाशलीनचित्ताय ते नमः Obeisance to You, whose consciousness is lost in the <i>Brahman</i> referred to as <i>paradhāma</i> and <i>parākāśa</i> , the highest state of infinity	

55. अनारततपस्यासदिव्यशोभाय ते नमः: <i>anārata-tapasyāpta-divyaśobhāya te namah</i>	अनारत-तपस्याप्त-तिव्यशोभाय ते नमः: anArata-tapasyApta-divyaSobhAya te nama:
अितेविटात् तपसिणैः उन्नतान् तिव्यं तेजिसाटान् विळन्तुम् उमक्कु नमस्कारम् Obeisance to You, who shines with a divine lustre emanating from incessant <i>tapas</i>	
56. शमादिषड्गुणयतस्वचित्ताय नमो नमः: <i>samādiṣadguṇa-yata-svacittāya namo namah</i>	शमाति-षट्कुण्ण-यत-स्वचित्ताय नमो नमः: SamAdi-shaDguNa-yata-svacittAya namo nama:
शमम् मुतलीय आरु तुणांकणाल् कट्टुप्पट्ट सित्तत्तत्तयुत्तयुत्तयुत्तवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him whos is mind is controlled by the six virtues beginning from <i>sama</i> etc. <sup>1</sup>	
57. समस्तभक्तजनतारक्षकाय नमो नमः: <i>samasta-bhakta-janatā-rakṣakāya namo namah</i>	समस्त-पक्त-जिनता-रक्षिकाय नमो नमः: samasta-bhakta-janatA-rakshakAya namo nama:
एल्ला पक्त जिनांकणायम् रक्षिप्पवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who is the protector of all devotees	
58. स्वशरीरप्रभाधूतहेमभासे नमो नमः: <i>svaśarīra-pradhābhūta-hemabhāse namo namah</i>	स्वशरीर-प्रधाभूत-हेमभासे नमो नमः: svaSarIra-prabhAdhUta-hemabhAse namo nama:
तन् शरीरत्तिलिरुन्तु उन्नतान् ओरियाल् तन्क कान्तिये मंकक्षेचयुत्तवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who shames gold nue by the gloss emanating from his body	
59. अग्नितस्वर्णपट्टतुल्यफालाय ते नमः: <i>agnitapta-svarṇapatta-tulya-phālāya te namah</i>	अग्नितप्त-स्वर्णपट्ट-तुल्य-फालाय ते नमः: agnitapta-svarNapaTTa-tulya-phAlAya te nama:
तियिल काच्चिण तन्क पट्टतेप पोरन्ऱ नेऱ्ऱियुत्तय उमक्कु नमस्कारम् Obeisance to You, whose forehead shines like a golden plate tempered by fire	
60. विभूतिविलसच्छुभ्रललाटाय नमो नमः: <i>vibhūti-vilasacchubhra-lalāṭāya namo namah</i>	विष्णुति-विलसच्छुभ्र-ललाटाय नमो नमः: vibhUti-vilasacchubhra-lalATAYa namo nama:
विष्णुति तिकमुम पिरकाशमान नेऱ्ऱियुत्तयवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who sports sacred <i>vibhūti</i> on his radiant forehead	
61. परिव्राङ्गसंस्वयपदाब्जाय नमो नमः: <i>parivrāḍgana-saMsevyā-padābjāya namo namah</i>	परिव्राड्गन-सम्सेव्य-पदाब्जाय नमो नमः: parivrADgaNa-samsevyA-padAbjAya namo nama:
सन्यालीकणांकणाल् लेलिकप्पट्ट पात्तकमलमुत्तयवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him whose lotus feet are worshipped by crowds of sanyasis	
62. आर्तार्तिश्रवणापोहरतचित्ताय ते नमः: <i>artārti-śravaṇāpoha-rata-cittāya te namah</i>	आर्तार्ति-पोहरत-चित्ताय ते नमः: ArtArti-SravaNApoha-rata-cittAya te nama:
तुन्पप्पट्टम पक्तहर्तरक्कीन् तुयरम् केट्टतव्वटनेये अवेकणा निक्कुवत्तिल ाउपट्ट सित्तमुन्ण उमक्कु नमस्कारम् Obeisance to You, who, on hearing about the miseries of his devotees, engages his heart to remove them	
63. ग्रामीणजनतावृत्तिकल्पकाय नमो नमः: <i>grāmīṇa-janatā-vṛtti-kalpakāya namo namah</i>	क्रामीण-जिनता-वृत्ति-कल्पकाय नमो नमः: grAmINa-janatA-vRtti-kalpakAya namo nama:
क्रामामन्कणील वामुम श्वर्णीलयिलिरुक्कुम जिनांकणील जिवन्ततुक्कु वलि काट्टुपवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who finds ways for the livelihood of the downtrodden in the villages	

64. जनकल्याणरचनाचतुराय नमो नमः: <i>janakalyāṇa-racanā-caturāya namo namah</i>	जिनकल्याण-रचना-सतुराय नमेऽनमः: janakalyAṇa-racanA-caturAya namo nama:
जिन-कल्याणं एन्त्वाम् (जिन-कल्याणं नन्नमेककाळा) इयक्कत्तेत तिऱ्मेयूटनं मेहूकोन्टवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who masterfully arranged for the <i>jan-kalyāṇ</i> movement, for the happiness of the people	
65. जनजागरणासक्तिदायकाय नमो नमः: <i>jana-jāgaranāsakti-dāyakāya namo namah</i>	जिन-जागरण-सक्ति-दायकाय नमेऽनमः: jana-jAgaraNAsakti-dAyakAya namo nama:
पक्त जिनकल्याणं अनुन्ताणं तुयिलिरुन्तु वीर्त्तुक्केकाळा आसे केाउप्पवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him gives His devotees a desire to wake up from their state of ignorance	
66. शङ्करोपज्ञसुपथसञ्चाराय नमो नमः: <i>śaṅkaropajña-supatha-saṅcārāya namo namah</i>	शङ्करोपज्ञ-सुपथ-सञ्चाराय नमेऽनमः: Sankaropajna-supatha-sancArAya namo nama:
आचारीय शङ्कररालं अन्तिमप्पबुत्त पातेयिलं सञ्चरीप्पवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who follows the well chosen path introduced by <i>Ācārya Śaṅkara</i>	
67. अद्वैतशास्त्ररक्षायां सुलग्नाय नमो नमः: <i>advaita-śāstra-rakṣāyām sulagnāya namo namah</i>	अत्त्वेत-शास्त्र-रक्षीयाम् लग्नाय नमेऽनमः: advaita-SAstra-rakshAya(a)m sulagnAya namo nama:
अत्त्वेतशास्त्ररक्षायां वल्लग्नाय नमो नमः: Obeisance to Him who is deeply involved in protecting the path of <i>Advaitā</i>	
68. प्राच्यप्रतीच्यविज्ञानयोजकाय नमो नमः: <i>prācyā-pratīcya-vijñāna-yojakāya namo namah</i>	प्राच्य-प्रतीच्य-विज्ञान-योजकाय नमेऽनमः: prAcya-pratIcya-vijnAna-yojakAya namo nama:
पम्मेय, नवीन विन्दुन्ताणकली इन्नेप्पवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who integrates oriental and occidental scientific knowledge	
69. गौर्वणवाणीसंरक्षाधुरीणाय नमो नमः: <i>gairvāṇa-vāṇī-saMrakṣā-dhurīṇāya namo namah</i>	गैर्व-वाणी-वाणी-संरक्षा-धुरीणाय नमेऽनमः: gairvAṇa-vANI-samrakshA-dhurINAYa namo nama:
सम्बल्करुत पातेयिल रक्षीप्पतिल मुन्निप्पवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who is a leader in protecting and nourishing the language of Sanskrit	
70. भगवत्पूज्यपदानामपराकृतये नमः: <i>bhagavat-pūjyapādānām-aparākṛtaye namo namah</i>	पकवत्पूज्यपातानुम-अपराकृतये नमः: bhagavat-pUjyapAdAnAm-aparAkRtaye nama:
संकरपकवत्पातरीन् इन्तेन्तु उरुवाक वीनकुपवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who is a replica of <i>Śaṅkarācārya</i>	
71. स्वपादयात्रया पूतभारताय नमो नमः: <i>svapāda-yātrayā pūta-bhāratāya namo namah</i>	स्वपाद-यात्रया पूत-भारताय नमेऽनमः: svapAda-yAtrayA pUta-bhAratAya te namo nama:
तन्न पातयात्तिरेयालं पारत तेचत्तेत पवित्रमाक्कियवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who sanctified the country of India by his pilgrimages on foot	
72. नेपालभूपमहितपदाब्जाय नमो नमः: <i>nepāla-bhūpa-mahita-padābjāya namo namah</i>	नेपाल-भूप-महित-पताप्जाय नमेऽनमः: nepAla-bhUpa-mahita-padAbjAya namo nama:
नेपाल महराजावालं पूज्जीक्कप्पत्त पातकमलंकग्नेयवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him whose feet were worshipped by the Maharaja of Nepal	

73. चिन्तितक्षणसंपूर्णसङ्कल्पाय नमो नमः  
*cintitakṣana-sampūrṇa-saṅkalpāya namo namah*

சின்திதக்ஷண-ஸம்பூர்ண-ஸங்கல்பாய நமோ நமः  
*cintitakshaNa-sampUrNa-sankalpAya namo nama:*

நினைத்த சமீணமே அந்த எண்ணத்தை நிறைவேற்றிக்கொள்பவருக்கு நமஸ்காரம்  
Obeisance to Him who fructifies his intensions the very moment he thinks about them

74. यथाज्ञकर्मकृद्गोत्साहकाय नमो नमः  
*yathājñā-karmakrd-vargotsāhakāya namo namah*

यथाज्ञु-कर्मकरुत्-वर्त्कोत्साहकाय नमो नमः  
*yathAjna-karmakRd-vargotsAhakAya namo namaH*

சொன்னபடி கார்யம் நிறைவேற்றும் (விதிபடி கர்மா செய்யும்) ஐனஸமுஹங்களுக்கு உத்ஸாஹம் கொடுப்பவருக்கு நமஸ்காரம்  
Obeisance to Him who inspires the groups of people who execute the given commands (fulfill their ordained duties)

75. मधुराभाषणप्रीतस्वाश्रिताय नमो नमः  
*madhurā-bhāṣana-prīta-svāśritāya namo namah*

मथुरा-पाळिऩ-पर्ति-स्वाश्रिताय नमो नमः  
*madhurA-bhAShaNa-prItA-svASritAya namo namaḥ*

மதுரமான வார்த்தைகளால் சிற்யகணங்களை மகிழ்விப்பவருக்கு நமஸ்காரம்  
Obeisance to Him who pleases disciples by His sayings delivered with a mellifluous voice

76. सर्वदा शुभमस्त्वत्याशंसकाय नमो नमः  
 sarvadā śubhamastvityāśaMsakāu namo namah  
 सर्ववत्ता प्रापमस्त्वत्याशंसकाय नमो नमः  
 saryadA SubhamastyASamsakAva namo namaH

“எப்பொழுதும் சாபம் உண்டாக்ட்டும்” என்று ஆசிர்வாதம் செய்யவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who blesses with the words “Let there be good luck everywhere”

77. चित्रीयमाणजनतासन्दृष्टाय नमो नमः  
*citrIyamA-na-janatA-sandrstāya namo namah*

சித்ர்யமாண-ஐனதா-ஸந்தருஷ்டாய நமோ நமः  
*citrIyamANa-janatA-sandRshTAyA namo nama:*

பக்த ஐங்களால் அத்யாம்சரியத் துடன் காணப்படுவதுக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who gives *darśanam* which lifts his devotees to ecstasy.

78. शरणागतदीनार्तपरित्रात्रे नमो नमः  
 śarānāgata-dīnārta-paritrātare namo namah  
 පාරණුකත-තිනුරත-පරිත්රාතරේ නමො නම:  
 SaraNAGata-dInArta-paritrAtre namo nama:

துயாத்தினால் தீண்ணிலையடைந்து தன்னிடம் சரணம் புகுந்தவர்களை காப்பவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who protects those who have become weak from suffering and seek His refuge

79. सौभाग्यजनकापाङ्गवीक्षणाय नमो नमः  
*saubhāgya-janakāpāñga-vikṣanāya namo namah*

ஸௌபாக்யஜனகாபாங்கவிக்ஷணாய நமோ நமோ  
*saubhAgya-janakApAnga-vIkshaNAya namo nama:*

பக்தர்களுக்கு ஸௌபாக்யம் தரும் கடைக்கண் பார்வை உள்ளவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him whose side glances shower welfare and blessings to devotees

80. दुरवस्थितहृतापशामकाय नमो नमः  
*duravasthita-hṛttāpa-śāmakāya namo namah*

துரவஸ்தித-ஹ்ருத்தாப-ஶாமகாய நமோ நமः  
*duravasthiha-hRttApa-SAmakAya namo nama:*

கல்தமான தசையில் இருப்பவர்களின் ஹிருதய தாபத்தைத் தணிப்பவருக்கு நமஸ்காரம்  
Obeisance to Him who quenches the pain in the hearts of those who find themselves in difficult circumstances

81. ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଜ୍ୟବିମତପ୍ରାତସମନ୍ଵ୍ୟକୃତେ ନମ:  
*duryoJya-vimata-vr̄ata-samanvaya-krte namah*

ତୁର୍ଯ୍ୟୋଜ୍ୟ-ବିମତ-ପ୍ରାତ-ସମନ୍ଵ୍ୟ-କୁର୍ତେ ନମ:  
*duryoJva-vimata-vr̄Ata-samanvaya-kRte nama:*

மதுபேத வின் விவாதம் செய்யும் கூட்டங்களுக்கு ஸமாதானம் செய்பவருக்கு நமஸ்காரம்  
Obeisance to Him who peacefully brings together groups of people who indulge in unnecessary fights over religious differences

82. निरस्तालस्यमोहाशाविक्षेपाय नमो नमः	नीरस्तालस्य-मोहाशा-विक्षेपाय नमो नमः nirastālasya-mohāśā-vikṣepāya namo namaḥ
सोम्पेतित्तनम्, मोहम्, आश, ऐन्नासंचितूलं इवेकैना वेन्हवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who has won over laziness, delusion, desire and mistaken mental perception	
83. अनुगन्तद्वारासाद्यपदवेगाय ते नमः	अनुकन्त्तरु-तुरासात्य-पत्वेकाय ते नमः anugantR-durAsAdya-padavegAya te namaḥ
तन्ज्ञे तेऽतर्न्तु वरुवर्कणाल तेऽतरामुष्यात वेकत्तुटन् नटक्किन्न उमक्कु नमस्कारम् Obeisance to You, the speed of whose gait leaves behind those who try to follow	
84. अन्यानाज्ञातसङ्कल्पविचित्राय नमो नमः	अन्यान्ज्ञात-संकल्प-विचित्राय नमो नमः anyAnAgnAta-sankalpa-vicitrAya namo namaḥ
(आरम्पत्तिल) मर्गवर्कणाल अनियमुष्यात आस्चर्यमाण तिट्टतंकणुत्ययवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who has wonderful plans that others are not able to understand (at first)	
85. सदाहसन्मुखाजापनीताशेषशुचे नमः	सत्ता-हृसन्मुकाप्जिपन्त्ताप्ते ष्ठि-पा-से नमः sadA-hasanmukhAbjApanItASesha-Suce namaḥ
सत्ता चिरित्त मुकमलत्ताल एल्ला तुकक्तत्तयुम नीक्कुपवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who removes the infinite misery of people by the constant smile on His lotus face	
86. नवषष्टिमाचार्यशङ्कराय नमो नमः	नवष्टिष्ठितमाचार्य-शा-ंकराय नमो नमः navashashTitamAcArya-SankarAya namo namaḥ
अष्टपत्तु ओन्पत्तावतु शा-ंकराचार्यानुक्कु नमस्कारम् Obeisance to the sixty-ninth Śāṅkarācārya	
87. विविधासजनप्रार्थस्वगृहातये नमः	विविधाप्त-ज्ञि-प्रार्थत्य-स्वकरुह्याकत्तये नमः vividhApta-jana-prArthy-svagRhAgataye namaḥ
पल्वेऱु नेनुन्किय पक्त ज्ञेन्कणाल अमृक्कप्पत्तु अवरवर्क क्रुह्यम चेल्पवरुक्कु नमस्कारम् Obeisance to Him who accepts invitations and visits the homes of His close devotees, from different walks of life	
88. जैत्रयात्राव्याजकृष्टजनस्वान्ताय ते नमः	जैत्रयात्राव्याज-कृष्ट-ज्ञेन्वान्त्ताय ते नमः jaitrayAtrAvyAja-kRshTa-janasvAntAya te namaḥ
पक्तरक्किण मनांकैन कवरुम् चाक्किल विज्य यात्तिर्रये ऎउत्तुक्केकाळक्रिय उमक्कु नमस्कारम् Obeisance to You, who undertakes a <i>vijaya yātra</i> as a trick to conquer the minds of devotees	
89. वसिष्ठधौम्यसदृशदेशिकाय नमो नमः	वसिष्ठ-तेग्म-य-लत्तरुपा-तेपा-काय नमो नमः vasiṣṭa-dhaumya-sadṛśa-deśikāya namo namaḥ
वसिष्ठिर, तेग्मयर् पोन्न आचार्यानुक्कु नमस्कारम् Obeisance to the teacher who is like <i>Vasiṣṭa</i> and <i>Dhaumya</i>	
90. असकृत्क्षेत्रतीर्थदियात्रातृसाय ते नमः	असकृत्क्षेत्र-सेष्ठिर-तिर्त्ता-ती-यात्तरा-त्तरुप्त्ताय ते नमः asakrt-kṣetra-tīrthādi-yātrā-trptāya te namaḥ
अष्टिक्कृदिया चेष्ठिरम तिर्त्ततम मुत्तियवकणुक्कु यात्तिर्र चेय्वत्तिल पीरियमूल उमक्कु नमस्कारम् Obeisance to You, who enjoys making pilgrimages to sacred places, sacred rivers, etc.	

91. శ్రీచంద్రశేఖరగురోరేకశిష్యాయ తె నమ:	గ్రు-చంతరపో కర-కురోర-ఏక-పాషియాయ తె నమ: Sri-candraSekhara-guror-eka-SishyAya te namah
గ్రు చంతరచేకర కురువిన లురో చింధ్యాక తిక్కుమ ఉమక్క నమస్కారమ Obeisance to You, the only disciple of the guru Šrī CandraSekhendra Sarasvati	
92. గురోహృదగతసఙ్కల్పక్రియాన్వయకృతే నమ:	క్రియాన్వయక్రూతే నమ: guror-hrdgata-saṅkalpa-kriyānvaya-krte namah
గురోహృదగతసఙ్కల్పక్రియాన్వయకృతే నమ: guror-hRdgata-sankalpa-kriyAnvaya-kRte namah	గురోర-హర్దగతా-సంకల్పా-క్రియాన్వయ-క్రూతే నమ: guror-hRdgata-sankalpa-kriyAnvaya-kRte namah
తన కురువిన హిగ్రుతయథతిల ఇరుక్కుమ ఎన్నానుతతాతి చెయలాక్కియవరుక్క నమస్కారమ Obeisance to Him who executes the desires in the heart of his guru	
93. గురువ్యక్తపాలభసమభావాయ తె నమ:	గురువర్యాక్కుపాలప్తాలభసమభావాయ తె నమ: guruvarya-kṛpālabdha-sama-bhāvāya te namah
గురువ్యక్తపాలభసమభావాయ తె నమ: guruvarya-kRpAlabdha-sama-bhAvAya te namah	గురువర్యాక్కుపాలప్తాలభసమభావాయ తె నమ: guruvarya-kRpaAlabdha-sama-bhAvAya te namah
మెంమెతాంకియ కురువిన కిరుపె అటైన్తు లమ పావత్తతుటన ఇరుక్కుమ ఉమక్క నమస్కారమ Obeisance to You, who is in a state of even composure resulting from the grace of His great guru	
94. యోగలిఙ్గేన్తుమौలిశ్పుజకాయ నమో నమ:	యోక-వినకెంతు-మెసోశా-ప్ర్షుజికాయ నమో నమ: yoga-liṅgendu-maulīśa-pūjakāya namo namah
యోకవినకుమాన గ్రు చంతరమెసోశా వారుక్క ప్రుజీ చెయపవరుక్క నమస్కారమ Obeisance to Him who performs pūjā to Šrī CandraMaulīśvara in the yogaliṅga form	యోకవినకుమాన గ్రు చంతరమెసోశా వారుక్క ప్రుజీ చెయపవరుక్క నమస్కారమ Obeisance to Him who performs pūjā to Šrī CandraMaulīśvara in the yogaliṅga form
95. వయావృద్ధానాథజనాశ్రయదాయ నమో నమ:	వయోవర్గుత్తా-అనాత-జీగుప్పరయతాయ నమో నమ: vayovrddha-anātha-janāśrayadāya namo namah
వయావృద్ధానాథజనాశ్రయదాయ నమో నమ: vayovRddha-anAtha-janASrayadAya namo namah	వయోవర్గుత్తా-అనాత-జీగుప్పరయతాయ నమో నమ: vayovRddha-anAtha-janASrayadAya namo namah
ముత్తియవర్కగ్రుక్కుమ అనాతాతకగ్రుక్కుమ కాప్పకంకలొక కట్టియవరుక్క నమస్కారమ Obeisance to Him who created refuges for old helpless people	
96. అవృత్తికోపదృతానాం వృత్తిదాయ నమో నమ:	అవగ్రుత్తికోపత్తరుతానుమ వగ్రుత్తితాయ నమో నమ: avṛttikopadrutānāM vṛtti-dāya namo namah
అవృత్తికోపదృతానాం వృత్తిదాయ నమో నమ: avRttikopadrutAnAm vRtti-dAya namo namah	అవగ్రుత్తికోపత్తరుతానుమ వగ్రుత్తితాయ నమో నమ: avRttikopadrutAnAm vRtti-dAya namo namah
జీవనత్తతుక్క వేశియిస్లామల తుంపప్పబ్పుబవర్కగ్రుక్క వేశి కిటెక్క వాళి చెయపవరుక్క నమస్కారమ Obeisance to Him who finds livelihoods for people who have no employment	
97. స్వగురుపణ్యా విశ్వవిద్యాలయకృతే నమ:	స్వగురుపణ్యా విశ్వవిద్యాలయక్రూతే నమ: svagurūpajñayā viśvavidyālaya-krte namah
స్వగురుపణ్యా విశ్వవిద్యాలయకృతే నమ: svagurUpajnayA viSvavidyAlaya-kRte nama:	స్వగురుపణ్యా విశ్వవిద్యాలయక్రూతే నమ: svagurUpajnayA viSvavidyAlaya-kRte nama:
తన కురువిన పెయరిల గ్రు చంతరచేకరెంతిర పల్కలై కస్లూరియై కట్టియవరుక్క నమస్కారమ Obeisance to Him who established a university called “Sri Chandrashekhaendra University” named after His guru	
98. విశ్వరాష్ట్రియసద్గ్రన్థకోశాగారకృతే నమ:	విశ్వరాష్ట్రియసద్గ్రన్థకోశాగారక్రూతే నమ: viśva-rāṣṭhrīya-sadgrantha-kośāgāra-krte namah
విశ్వరాష్ట్రియసద్గ్రన్థకోశాగారకృతే నమ: viSva-rAshThriya-sadgrantha-koSAgAra-kRte namah	విశ్వరాష్ట్రియసద్గ్రన్థకోశాగారక్రూతే నమ: viSva-rAshThriya-sadgrantha-koSAgAra-kRte namah
పణ్ణుట్ట నన్నూలక్తత అమాతతవరుక్క నమస్కారమ Obeisance to Him who established an international library for spiritual books	
99. విద్యాలయేషు సద్ధర్మబోధదాత్రే నమో నమ:	విధ్యాలయేషు సద్ధర్మ-పోత-తాత్రో నమో నమ: vidyālayeṣu saddharma-bodha-dātre namo namah
విద్యాలయేషు సద్ధర్మబోధదాత్రే నమో నమ: vidyAlayeshu saddharma-bodha-dAtre namo namah	విధ్యాలయేషు సద్ధర్మబోధదాత్రే నమో నమ: vidyAlayeshu saddharma-bodha-dAtre namo namah
కస్లూరికసిలుమ పస్నిక్కస్కటంకసిలుమ నల్లఱవాళిక కస్లవి అనిప్పబవరుక్క నమస్కారమ Obeisance to Him who propagates good conduct and character in schools and colleges	

100. देवालयेष्वर्चकादिवृत्तिदात्रे नमो नमः <i>devālayeṣvarcakādi-vṛtti-dātre namo namah</i>	तेवोलयेष्वरस्काति-वरुत्ति-तात्त्रे नमो नमः devAlayeshvarcakAdi-vRtti-dAtre namo nama:
कोविल்களில் அர்ச்சகர் முதலியவர்களுக்கு ஜீவனத்துக்காக வசதி காட்டுபவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who arranges for the livelihood of the priests and other workers in temples	
101. कैलासे भगवत्पादमूर्तिस्थापक ते नमः <i>kailāse bhagavatpāda-mūrti-sthāpaka te namah</i>	कैलासे पकवत्पात-मूर्ति-स्तापक ते नमः kailAse bhagavatpAda-mUrti-sthApaka te nama:
(இமயத்தில் இருக்கும்) கैलासமலையில் ஆதி ஶங்கர பகவत்பாதரின் முர்த்தி ஸ்தாபனம் செய்தவரே, உங்களுக்கு நமஸ்காரம் Oh Installer of the image of <i>Ādi Śankara</i> on Mount Kailasa in the Himalayas! Obeisance to You	
102. कैलासमानससरोयात्रापूत्रहृदे नमः <i>kailāsa-mānasa-saro-yātrā-pūta-hṛde namah</i>	कैलास-मानस-सरो-यात्रा-पूत्र-हृदे नमः kailAsa-mAnasa-saro-yAtra-pUta-hRde nama:
कैलासम, मानससरोवर் एवं इवेकणुक्तु यात्रिरे चेयतु त्रायमेप्प बेत्र विरुद्धयम् उत्तयवरुक्तु नमस्कारम् Obeisance to Him whose heart was purified by a pilgrimage to Mt. Kailasa and Lake Manasarovar	
103. असमे बालसप्ताद्रिनाथालयकृते नमः <i>asame bāla-saptādrināthālaya-kṛte namah</i>	अलमे पाल-सप्तात्रीनाथालयकृते नमः asame bAla-saptAdrinAthAlaya-kRte nama:
पाल वेंकटेप्पवरुक्तु, अस्सामील, ओरु कोविल अमेत्तवरुक्तु नमस्कारम् Obeisance to Him who constructed a temple in Assam for Lord Bala Venkateshwara, the Lord of the Seven Hills <sup>2</sup>	
104. शिष्ठेवद्यापकानां मानयित्रे नमो नमः <i>sīṣṭa-vedādhyāpakānāM mānayitre namo namah</i>	शष्टे-वेतात्यापकानुम् मानयित्रे नमो नमः SishTa-vedAdhyApakAnAm mAnayitre namo nama:
नियममाक वेतन्कलै त्रप्पिप्पवर्कलैप्प बेरुमेप्पउत्तुपवरुक्तु नमस्कारम् Obeisance to Him who honours the devoted teachers of the Vedas	
105. महारुद्रातिरुद्रादितोषितेशाय ते नमः <i>mahārudrātirudrādi-toṣiteśāya te namah</i>	महारुत्तरातिरुत्तराति-तोषितेशाय ते नमः mahArudrAtirudrAdi-toshiteSAya te nama:
महारुत्तरम् अतिरुत्तरम् पोान्न याकन्कलाल शप्पवररे लन्तेतोषिम् चेय्युम् उमक्कु नमस्कारम् Obeisance to You, who pleases <i>Īśvara</i> by the many <i>yagas</i> of <i>Mahārudram</i> , <i>Atirudram</i> , etc.	
106. असकृच्छतचण्डीभिरहिताम्बाय ते नमः <i>asakrc-chatacaṇḍībhīr-arhita-ambāya te namah</i>	असकृच्छतचण्डीभिरहिताम्बाय ते नमः asakRc-chatacaNDibhīr-arhita-ambAya te nama:
அடிக்கடி ஶத-சண்டி முதலிய யாகங்களால் தேவியை வழிபடும் உமக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to You, who whorships <i>Śrī Devī</i> with <i>yagas</i> like <i>Sata Candi</i> , etc.	
107. द्रविडागमगातृणं र्यापयित्रे नमो नमः <i>dravida-gama-gātṛṇāM khyāpayitre namo namah</i>	त्रविडाकम-कात्तरुनुम् क्यापयित्रे नमो नमः draviDAGama-gAtRNAm khyApayitre namo nama:
(तेवारम் போன்ற) தமிழ் ஆகமங்கள் ஒதுபவர்களை ஸன்மானம் செய்பவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who honours singers of Tamil Vedas ( <i>Tevarams</i> )	
108. शिष्ठसङ्करविजयस्वर्चमानपदे नमः <i>sīṣṭa-saṅkaravijaya-svarcyamāna-pade namah</i>	शष्टे-शङ்கरविजयस्वर्चमान-पदे नमः SishTa-Sankaravijaya-svarcyamAna-pade nama:
தன் சிட்ரான ஶ்ரீ ஶங்கரவிஜயேந்த்ர-ஸரஸ்வதியால் திருவடிகளில் வழிபடபெறுபவருக்கு நமஸ்காரம் Obeisance to Him who is worshipped by <i>Śrī Śaṅkara Vijayendra Sarasvati</i> , his most worshipful disciple	

परित्यज्य मौनं वटाधःस्थितिं च  
व्रजन् भारतस्य प्रदेशात्प्रदेशम् ।  
मधुस्यन्दिवाचा जनान् धर्ममार्गे  
नयन् श्रीजयेन्द्रो गुरुभाति चित्ते ॥

*parityajya maunam vaṭādhahsthitim ca  
vrajan bhāratasya pradeśātpradeśam|  
madhusyandivacā janān dharmamārge  
nayan śrījayendro gururbhāti citte||*

(तक्षणे-मुर्त्तियाक) मेणन्ततेयुम् आलमरत्तथियिल् उट्कार्न्तुक्केण्णिरुप्पतेयुम् विट्टुविट्टु, पारतत्तिल् ओरु कोष्ठिलिरुन्तु इन्नेन्नु कोष्ठिक्कु यात्तिरे चेष्टुकेण्णु, तेजिनप्पोन्न इन्निमेयान् वार्तत्तेतकाला॒ जैनंकैना तर्म मार्कत्तिल् अमृत्तु चेल्किऱ ऎन् कुरुवान् ह्रि ज्येन्तर-सर्वस्वति ऎन् सित्तत्तिलेये तिकम्किरु॒.

My Guru Śrī Jayendra Sarasvatī, who guides people into dharmic ways by his honey-sweet words, who goes on *yātras* from one place to another in the whole of India, having discarded silence and the stay-put under a banyan tree (as does Śrī Dakṣināmūrti), always resides in my heart.<sup>3</sup>

परित्यज्य मेणन्म वटाधःस्थितिम् च  
वर्जिन् पारतस्य परतेहात्परतेहाम् ।  
मतुल्यन्तिवाचा जैनं तर्ममार्गे  
नयन् ह्रि ज्येन्तरो गुरुपाति चित्ते ॥

*parityajya maunam vaTAdha:sthitim ca  
vrajan bhAratasya pradeSAtpradeSam|  
madhusyandivAcA janAn dharmamArge  
nayan SriJayendro gururbhAti citte||*

#### Notes

The author of this beautiful Namavali is Sri S. V. Radhakrishna Shastri of Srirangam.

It was composed on the occasion of the *Pithārohana* of Śrī Jayendra Sarasvatī after the *Mahāsamādhi* of Śrī Mahāsvāmi in 1994. A later redaction with some additions and deletions was made in 2001 after His *Kailāsa Yātra*.

<sup>1</sup> See the following shloka from the *Bhagavad Gītā* 18:42 concerning the six *sampat*'s:  
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराज्ज्वमेव च ।

<sup>2</sup> Lord Venkateswara is also called Bala or Balaji

<sup>3</sup> This namavali equates and contrasts Swami Sri Jayendra Saraswati with Lord Dakshinamurti described in this famous shloka:

चित्रं वटतरोमूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा ।  
गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः ॥

This Guru, Lord Dakshinamurti, is seated under a banyan tree. His disciples are seated next to him. They are all old men, but He is a young lad. His teaching consists only of silence. Wonder of wonders! His disciples have learned everything and all their doubts have been removed.

Without the blessings of all the Sri Periavaas, such efforts at translation will not bear fruit. I place this at Their feet for Their blessings.

All errors here are due only to me. Please point them out to me and I will correct them. ....J. Sethuraman